



प्रेस नोट

देवबंद से जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार

22 फरवरी, 2019

आज दिनांक 22-02-2019 को यूपी एटीएस द्वारा देवबंद जनपद-सहारनपुर से जैश-ए-मोहम्मद के निम्न 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया।

1. शाहनवाज तेली

पुत्र गुलाम हसन तेली निवासी नूनमई यारीपुरा जिला कुलगाम जम्मू कश्मीर।

2. आकिब अहमद मलिक

पुत्र मोहम्मद अकबर निवासी ठोकर मौहल्ला, चंदगवां, तहसील लित्र, पुलवामा जम्मू कश्मीर।



शाहनवाज तेली

विवरण :-

कुलगाम, कश्मीर का रहने वाला शहनवाज आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सक्रिय सदस्य है। वर्तमान में देवबंद जनपद-सहारनपुर में रहकर जैश के लिये नए सदस्य तैयार करने में लगा था।

आकिब अहमद मलिक पुलवामा का रहने वाला है और यह भी देवबंद में बिना दाखिले के पढाई की आड़ में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिये आतंकी तैयार करने का प्रयास कर रहा था।



आकिब अहमद मलिक

विवेचना :-

यूपी एटीएस को देवबंद के एक जागरूक विद्यार्थी ने सूचना दी कि कुछ युवक देवबंद में बिना दाखिले के पढाई की आड़ में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिये आतंकी भर्ती करने का कार्य कर रहे हैं। इस पर ए.टी.एस. द्वारा जांच की गई तो संदेह प्रबल हुआ और शहनवाज व आकिब अहमद मलिक निगाह में आए जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक श्री ओ पी सिंह द्वारा IG ATS श्री असीम अरुण को स्वयं देवबंद जा कर ऑपरेशनल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जांच के लिए आज रात देवबंद में इनके कमरे पर तलाशी ली गई तो इनके पास से निम्नलिखित बरामदगी हुई।

बरामदगी :-

1. शाहनवाज तेली से 01 अदद पिस्टल 32 बोर मय 16 जिन्दा कारतूस।
2. आकिब अहमद मलिक से 01 अदद पिस्टल 32 बोर मय 14 जिन्दा कारतूस।
3. दोनों अभियुक्तों के फोन से जेहादी चैट, विडियो और, फोटो।

प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि दोनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सक्रिय सदस्य हैं। और इन्हे नए सदस्य/ आतंकी तैयार करने के लिये भेजा गया था।

प्रोफाइल :-

शहनवाज

- कुलगाम, कश्मीर का रहने वाला है।
- यह देवबंद, सहारनपुर में बिना दाखिले के रह कर जैश-ए-मोहम्मद के लिये आतंकी भर्ती करने का कार्य कर रहा था।
- यह स्वयं को विद्यार्थी बताकर यहाँ के स्थानीय विद्यार्थियों को गुमराह कर जैश-ए-मोहम्मद के लिए प्रेरित करता था।

आकिब

- कश्मीर का रहने वाला है, जिसका परिवार पुलवामा में ही रह रहा है।
- आकिब देवबंद, सहारनपुर में रह कर जैश-ए-मोहम्मद के लिये आतंकी भर्ती करने का कार्य कर रहा था।
- प्राप्त जानकारी के अनुसार यह लोग जैश-ए-मोहम्मद के लिए नये लड़के रिक्रूट करने का कार्य करते थे।

पूछताछ और अग्रिम कार्यवाही के बिन्दु :-

- कश्मीर से आकर यहाँ कब से छिपा था ?
- इसके और कौन-कौन से साथी हैं ?
- क्या यह किसी को जैश में भर्ती करने में सफल हुए ?
- इसके पास धन कैसे आया, कितना आया ?
- आतंकी भर्ती के बाद इनके टारगेट और क्या- क्या थे ?
- दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर ले कर लखनऊ स्थित ATS कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा व पुलिस कस्टडी रिमांड का अनुरोध किया जाएगा।

गिरफ्तारी टीम :-

- 1) पुलिस महानिरीक्षक असीम अरुण ए.टी.एस. उ.प्र.
- 2) पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्या सागर मिश्र, सहारनपुर
- 3) पुलिस उपाधीक्षक अतुल कुमार यादव ए.टी.एस. उ.प्र.
- 4) निरीक्षक शैलेश तोमर ए.टी.एस. उ.प्र.
- 5) निरीक्षक कुलदीप, प्रभारी निरीक्षक देवबंद सहारनपुर
- 6) उप निरीक्षक सचिन कुमार ए.टी.एस. उ.प्र.
- 7) उप निरीक्षक विनोद कुमार ए.टी.एस. उ.प्र.
- 8) उप निरीक्षक बिजेन्द्र स्पॉट उ.प्र. मय फाइटर

सहयोग:-

इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष सहयोग मिला और आगे भी उनसे समन्वय कर कार्रवाई की जाएगी।

हाई रिजोल्यूशन फोटो के लिए यहाँ क्लिक करें -

<https://drive.google.com/open?id=10PNuzefgnj5fzdadj4yThk5YWJ5B0fDz>

<https://drive.google.com/open?id=19t1rkraFc8y0HGKtY3Bbjf7HikiUteC2>